

INTERVIEW QUESTION FOR BACHELOR WORKING VISA

じこしょうかい

- 1.あなたのじこしょうかいをおしえてください。
- 2.かんたんなじこしょうかいをおねがいします。
- 3.じこしょうかいをいってください。
- 4.じゃあ、じこしょうかいからはじめましょう。

ROMAN

1. Anata no jikoshoukai wo oshiete kudasai.
2. Antanna jikoshoukai wo onegaishimasu.
3. Jikoshoukai wo itte kudasai.
4. Jya, jikoshoukai kara hajimemashou.

Nepali:

1. तपाईंको परिचय दिनुहोस्।

1. ごあいさつ (Goaisachu) Greetings
2. はじめまして (Hajimemashite)

Nepali : पहिलो पटक भेट्दा खुशी लाग्यो

- 3.ほんじつひつようなじかんいただきまことにありがとうございます。いまからじこしょうかいをさせていただきます。

Roman: Honjitsu hitsuyou na jikan itadaki makoto ni arigatou gozaimasu. Ima kara jikoshoukai wo sasete itadakimasu.

Nepali :आज मलाई समय दिनुभएकोमा तपाईंलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब म आफ्नो परिचय गराउँदछु।

- 4.わたしのじこしょうかいをみなさまのまえへきょうゆうするこのきかいをあたえていただきありがとうございます。

Roman : Watashi no jikoshoukai wo minasama no mae e kyoyuu suru kono kikai wo ataete itadaki arigatou gozaimasu.

Nepali : म आफ्नो परिचय तपाईंहरूसँग बाँड्न पाएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु।

1. わたしは……ともうします。

Roman : Watashi wato moushimasu.

Nepali : मेरो नाम ...हो।

2. ことしから……さいになります。

Roman : Kotoshi kara... sai ni narimasu.

Nepali : यो वर्षदेखिहुनेछ।

3. しゅっしんちはネパールの……です。でもげんざいは……。というところにすんでいます。

Roman : Shusshin chi wa Nepal no ...desu. Demo genzai wato iu tokoro ni sundeimasu.

Nepali : म नेपालकोबाट हुँ। तर अहिले म ...भन्ने ठाउँमा बस्छु।

4. ネパールの……だいがくで…。ねんに……をそつぎょうしました。げんざいはにほんごの N4べんきょうしております。

Roman : Nepāru nodaigaku de nen ni o sotsugyou shimashita. Genzai wa Nihongo no N4 benkyou shiteorimasu.

Nepali : मैले 20... मा नेपालको ... विश्वविद्यालयबाट सातक गरेको छु। अहिले म जापानी भाषा N4 को तयारी गर्दैछु।

5. しゅみはいろいろなりょうりをつくることです。とくにネパールりょうりがほとんどつくれます。

Roman : Shumi wa iroiro na ryouri wo tsukuru koto desu. Toku ni Nepal ryouri ga hotondo tsukuremasu.

Nepali : मेरो रुचि विभिन्न परिकारहरू बनाउनु हो। विशेष गरी नेपाली खाना प्रायः बनाउन सक्छु।

6. けいけんは……ねんくらい…。で…のしごとをしたことがあります。

Roman : Keiken wa ... nen kurai de no shigoto o shita koto ga arimasu.

Nepali : मैले करिब ... वर्षसम्म काम गरेको अनुभव छ।

7. ほかのチャレンジはにほんへいってにほんのかいしゃではたらきたいです。そのためいっしょうけんめいがんばってにほんごをべんきょうしております。

Roman : Hokano charenji wa Nihon e itte Nihon no kaisha de hatarakitai desu. Sono tame isshoukenmei ganbatte nihongo o benkyou shiteorimasu.

Nepali : मेरो अर्को चुनौती भनेको जापान गएर जापानी कम्पनीमा काम गर्नु हो। त्यसका लागि म जापानी भाषा कठिन परिश्रमका साथ अध्ययन गर्दैछु।

8. ほんじつよろしくおねがいたします。

Roman : Honjitsu yoroshiku onegai itashimasu.

Nepali : आजको लागि तपाईंको सहयोगको आशा गर्दैछु।

1. あなたのなまえはなんですか？なまえをおしえてください。

Roman :Anata no namae wa nan desu ka?

Nepali : तपाईंको नाम के हो? कृपया आफ्नो नाम बताउनुहोस्।

Answer: わたしのなまえは — です。

Roman : Watashi no namae wa desu.

Nepali : मेरो नाम हो।

2. なんさいですか? Nan Sai Desuka ?

तपाईंको उमेर कति हो?

Answer : いま……さいになります。

Roman : Ima, ... sai ni narimasu.

Nepali : अहिले, म वर्षको छु।

3. さいきん、どこにすんでいますか?

Roman : Saikin doko ni Sundeimasuka ?

Nepali : हालै, तपाईं कहाँ बस्दै हुनुहुन्छ?

Answer: さいきん…にすんでいます。

Roman : Saikin, ni sundeimasu.

Nepali : हालै, म काठमाण्डुमा बस्दै छु।

4. あなたのかぞくはなんにんですか?

Roman : Anatano Khajokuwa Nan Nin Desuka ?

Nepali : तपाईंको परिवारमा कति जना हुनुहुन्छ?

Answer : わたしのかぞくは…にんで、……とわたしです。

Roman : Watashi no kazoku wa nin de, desu.

Nepali : मेरो परिवारमा जना छन्, म।

5. さいきん、なにをしていますか?

Roman : Saikin Nani o Siteimasuka?

Nepali : हालै तपाईं के गर्दै हुनुहुन्छ?

Answer : さいきん、にほんごをべんきょうしながら、かぞくのSupport のために
…で…のしごとをしています。

Roman : Saikin, Nihongo o benkyou shinagara, kazoku no Support no tame
ni de no shigoto o shiteimasu.

Nepali : हालै, म जापानी भाषा अध्ययन गर्दै, परिवारको Support को लागि ...मा
...को काम गर्दै छु।

6. いつからにほんごをべんきょうしましたか?

Roman : Ichu Kara Nihongo wo Benkyusimasitaka?

Nepali : तपाईंले कहिलेदेखि जापानी भाषा अध्ययन गर्न थाल्नुभयो?

Answer: 1ねんまえからにほんごのべんきょうをはじめました。

Roman : Ichi nen mae kara Nihongo no benkyou o hajimemashita.

Nepali : मैले १ वर्ष अघि जापानी भाषा अध्ययन गर्न थालेको हुँ।

7. にほんごはだいなんかまでべんきょうしましたか？ あなたのにほんごの Level はなんですか？

Roman : Nihongo wa Dai Nan kha made benkyusimasitaka ? Anatano Nihongo no reberu wa nan desuka ?

Nepali : तपाईंले जापानी भाषा कुन कक्षासम्म अध्ययन गर्नुभयो? तपाईंको जापानी भाषा स्तर के हो?

Answer : いま、N4のだい40かべんきょうしています。わたしはともだちとメッセージをしたり、でんわをしたり、にほんごでかんたんなかいわをすることができます。

Roman : Ima, N4 no dai 40 ka benkyou shiteimasu. Watashi wa tomodachi to messeeji o shitari, denwa o shitari, Nihongo de kantan na kaiwa o suru koto ga dekimasu.

Nepali : अहिले, म N4 को ४०औं पाठ अध्ययन गर्दै छु। म साथीहरूसँग Massage लेख्न, फोन गर्न र सरल जापानीमा कुरा गर्न सक्छु।

8. あなたのちょうしよはなんですか？
あなたのとくいなことはなんですか？
あなたのいいところはなんですか？

Roman : Anata no chousho wa nan desu ka?

Anata no tokui na koto wa nan desu ka?

Anata no ee tokoro wa nan desu ka?

Nepali : तपाईंको बलियो पक्ष के हो?

तपाईंको विशेष कुरा के हो?

तपाईंको राम्रो पक्ष के हो?

Answer : わたしのちょうしよはなんでもいっしょうけんめいです。べんきょうやしごとどちらでもあきらめないでいっしょうけんめいがんばることで。それからあたらしいことにちょうせんするのがすきなので、にほんごをべんきょうしています。

Or,

わたしはあいてのはなしをきくことがもともとすきなタイプですから、わたしのちょうしよはあいてのはなしにみみをかたむけききいれることができます。

Roman : Watashi no chousho wa nandemo isshoukenmei desu. Benkyou ya shigoto dochira demo akiramenai de isshoukenmei ganbaru koto desu. Sorekara atarashii koto ni chousen suru no ga suki nano de, Nihongo o benkyou shiteimasu.

Or,

Watashi wa aite no hanashi o kiku koto ga motomoto suki na taipu desu kara, watashi no chousho wa aite no hanashi ni mimi o katamuke kikiireru koto ga dekiru koto desu.

Nepali :

मेरो बलियो पक्ष भनेको म जे गर्नुहोस्, मेहनत गर्न धेरै रुचाउँछु। अध्ययन र काम दुबैमा म कहिल्यै हार मान्दिन। साथै, म नयाँ चुनौतीहरू लिन मन पराउँछु, त्यसैले मैले जापानी भाषा अध्ययन गर्दै छु।

Or,

म अरुको कुरा सुन्न मन पराउने प्रकारको व्यक्ति हुँ, त्यसैले मेरो बलियो पक्ष भनेको अरुको कुरा सुन्न र बुझ्न सक्नु हो।

9. **あなたのたんしょはなんですか?**
あなたのがてなことはなんですか?
あなたのわるいところはなんですか?

Roman : Anata no tansho wa nan desu ka?

Anata no nigate na koto wa nan desu ka?

Anata no warui tokoro wa nan desu ka?

Nepali : तपाईंको कमजोरी के हो?
तपाईंको गाह्रो कुरा के हो?
तपाईंको नराम्रो पक्ष के हो?

Answer :わたしのたんしょはだれにもしんじるところです。わたしはだれにもじぶんとおなじようにおもってしんじられるのでこまることがあります。それでさいきんきをつけています。

Example:たとえば、わたしはともだちをしんじておかねをかしました。でもそのともだちはおかねにこまったときかえしてくれませんでした。それはたいへんです

。

Roman : Watashi no tansho wa dare ni mo shinjiru tokoro desu. Watashi wa dare ni mo jibun to onaji you ni omotte shinjirareru node komaru koto ga arimasu. Sore de saikin ki o tsuketeimasu. Tatoeba, watashi wa tomodachi o shinjite okane o kashimashita. Demo sono tomodachi wa okane ni komatta toki kaeshite kuremasen deshita. Sore wa taihen desu.

Nepali : मेरो कमजोरी भनेको म अरुलाई सजिलै विश्वास गर्न सक्छु। म अरुलाई आफ्नो जस्तो सोचेर विश्वास गर्न सक्छु, जसले गर्दा कहिलेकाहीं समस्यामा पर्छु। त्यसैले म हालै यसमा ध्यान राख्दै छु। उदाहरणको लागि, मैले साथीलाई विश्वास गरेर पैसा कासिँदा गरें। तर त्यो साथीले पैसा आवश्यक परेको बेला फर्काई दिएन। यो निकै कठिन छ।

10. **あなたは どうして にほんへ いきたい ですか?**
どうして、なぜ にほんでは たらきたい ですか?
どんな きっかけで にほんに きょうみをもった の ですか?

Roman : Anata wa doushite Nihon e ikitai desu ka? Doushite, naze Nihon de hatarakitai desu ka?

Donna kikkake de Nihon ni kyomi o motta no desu ka?

Nepali : तपाईं किन जापान जान चाहनुहुन्छ?
तपाईं जापानमा किन काम गर्न चाहनुहुन्छ?
तपाईंलाई जापानमा चासो कसरी लाग्यो?

Answer : にほんはろうどうしゃにとってもあんぜんなくにだときき、にほんでながくまではたらくことができるとおもいます。はたらくあいだににほんのぎじゅつとにほんじんのはたらきかたをまなびながら、わたしとともにかぞくのソフトをできたらとおもって、にほんへいってにほんではたらかたいです。

Roman : Nihon wa roudousha ni totte mo anzen na kuni da to kiki, Nihon de nagaku made hataraku koto ga dekiru to omoimasu. Hataraku aida ni Nihon no gijutsu to Nihonjin no hatarakikata o manabinagara, watashi to tomo ni kazoku no sofuto o dekitara to omotte, Nihon e itte Nihon de hatarakitai desu.

Nepali:

मैले सुनेको छु कि जापान श्रमिकहरूको लागि सुरक्षित देश हो, र म जापानमा लामो समयसम्म काम गर्न सक्षम हुने आशा गर्छु। काम गर्दा, जापानको प्राविधिक र जापानीहरूको काम गर्ने तरिका सिक्दै, मैले र मेरो परिवारले सँगै सफ्टवेयर बनाउन सक्ने आशा राखेर म जापान जान र त्यहाँ काम गर्न चाहन्छु।

11. どれぐらいにほんではたらかたいですか?

Roman : . Dore gurai Nihon de hatarakitai desu ka?

Nepali : तपाईं जापानमा कति समय काम गर्न चाहनुहुन्छ?

Answer : わたしはさいていでも10ねんぐらいはたらかたいです。

Roman : Watashi wa saitei demo 10 nen gurai hatarakitai desu.

Nepali : . म कम्तिमा १० वर्ष काम गर्न चाहन्छु।

12. いままでどのようなしごとのけいけんがありますか?

どんなしごとのけいけんがありますか?

けいれきはなんですか?

Roman : Ima made dono youna shigoto no keiken ga arimasu ka?

Donna shigoto no keiken ga arimasu ka? Keireki wa nan desu ka?

Nepali : अहिलेसम्म तपाईंले कुन प्रकारको कामको अनुभव गर्नुभयो?

तपाईंको अनुभव के हो?

Answer : わたしは2ねんまえにネパールの……のしごとをやめました。なぜなら、いんしょくてんのしごとにきょうみがあるので、いまもホテルでウェーターのしごとをしています。

Roman : Watashi wa 2 nen mae ni Nepāru no no shigoto o yamemashita. Nazenara, inshokuten no shigoto ni kyomi ga aru node, ima mo hoteru de wētā no shigoto o shiteimasu.

Nepali : मैले २ वर्ष अघि नेपालमाको काम छोडें। यसको कारण भनेको म रेस्टुरेन्टको काममा चासो राख्छु र अहिले पनि म होटलमाको काम गर्दै छु।

13. にほんでどんなしごとがしたいですか?

Roman : . Nihon de donna shigoto ga shitai desu ka?

Nepali : तपाईं जापानमा के प्रकारको काम गर्न चाहनुहुन्छ?

Answer : おしえたらなんでもできるとおもいます。でも、いんしょくてんのしごとにきょうみがあるので、レストランではたらかたいです。

Roman : Oshietara nandemo dekiru to omoimasu. Demo, inshokuten no shigoto ni kyomi ga aru node, resutoran de hatarakitai desu.

Nepali : : म जे सिकाए पनि गर्न सक्ने विश्वास गर्छु। तर, म रेस्टुरेन्टको काममा चासो राख्छु, त्यसैले म रेस्टुरेन्टमा काम गर्न चाहन्छु।

14. **なぜこのレストランではたらいきたいですか?**

どうしてこの…で、かいしゃではたらいきたいですか?

りゆうをおしえてください しぼうどうきをおしえてください。

しぼうどうきはなんですか?

Roman : Naze kono resutoran de hatarakitai desu ka?

Doushite kono resutoran de, kaisha de hatarakitai desu ka?

Riyuu o oshiete kudasai.

Shibou douki o oshiete kudasai. Shibou

douki wa nan desu ka?

Nepali: तपाईं किन यो रेस्टुरेन्टमा काम गर्न चाहनुहुन्छ?

किन यो रेस्टुरेन्टमा, कम्पनीमा काम गर्न चाहनुहुन्छ?

कृपया कारण बताउनुहोस्।

कृपया आफ्नो आवेदन गर्ने उद्देश्य बताउनुहोस्। तपाईंको आवेदन उद्देश्य के हो?

Answer : わたしはひとりでじゃなくて、ほかのひととグループでいっしょにはたらくのが好きです。ホテルのしごとはおきゃくさまのまんぞくがいちばんかんがえてするしごとですから、ていねいなところをつかうのはだいじです。それにわたしはあたらしいたべものをためしたり、あたらしいたべもののなかでとくにほんしょくをまなぶのが好きです。それからわたしはおんしゃにおうぼしました。もしおんしゃではたらくチャンスがあれば、とてもうれしくなります。いじょうです。

Roman : Watashi wa hitori de janakute, hoka no hito to gurūpu de issho ni hataraku no ga suki desu. Hoteru no shigoto wa okyakusama no manzoku ga ichiban kangaete suru shigoto desu kara, teinei na tokoro o tsukau no wa daiji desu. Sore ni watashi wa atarashii tabemono o tameshitari, atarashii tabemono no naka de tokuni Nihonshoku o manabu no ga suki desu. Sorekara watashi wa onsha ni oubou shimashita. Moshi onsha de hataraku chansu ga areba, totemo ureshiku narimasu. Ijou desu.

Nepali: म एकलै होइन, अरूसँग समूहमा सँगै काम गर्न मन पराउँछु। होटलको काम भनेको ग्राहकहरूको सन्तुष्टिलाई पहिलो प्राथमिकता राखेर गरिने काम हो, त्यसैले शिष्टाचार देखाउनु महत्त्वपूर्ण छ। साथै, मलाई नयाँ खानाहरूको प्रयास गर्न र विशेष गरी नयाँ खाना, जस्तै जापानी खाना सिक्न मन पर्छ। त्यसैले मैले तपाईंको कम्पनीमा आवेदन गरें। यदि तपाईंको कम्पनीमा काम गर्ने अवसर पाएँ भने म धेरै खुसी हुनेछु।

15. **いんしょくてんのしごとはどんなしごとだとおもいますか?**

Roman : Inshokuten no shigoto wa donna shigoto da to omoimasu ka?

Nepali : रेस्टुरेन्टको काम कस्तो काम हो ?

Answer : いんしょくてんのしごとはおきゃくさまのまんぞくをかんがえて、おきゃくさまにおいしいりょうりやサービスをていきょうするしごとだとおもいます

Roman : Inshokuten no shigoto wa okyakusama no manzoku o kangaete, okyakusama ni oishii ryouri ya saabisu o teikyou suru shigoto da to omoimasu.

Nepali: रेस्टुरेन्टको काम भनेको ग्राहकहरूको सन्तुष्टिलाई ध्यानमा राख्दै, ग्राहकहरूलाई स्वादिष्ट खाना र सेवा प्रदान गर्ने काम हो भनी म विश्वास गर्छु।

16. どちらのかいしゃにはいってまずなにをしたいですか?

Roman : Kochira no kaisha ni haitte mazu nani o shitai desu ka?

Nepali : तपाईं यस कम्पनीमा प्रवेश गरेपछि सुरुमा के गर्न चाहनुहुन्छ?

Answer : みなさんとコミュニケーションをとりながら、かんけいをきずいてしたいです。

Roman : Minasan to komyunikēshon o torinagara, kankei o kizuite shitai desu.

Nepali : . म सबैसँग कुराकानी गर्दै सम्बन्ध निर्माण गर्न चाहन्छु।

17. しごとで もんだいがおきたときにどうかいけつしますか?

にほんにきてこまったことがあったらどうしますか?

Roman : Shigoto de mondai ga okita toki ni dou kaiketsu shimasu ka? Or

Nihon ni kite komatta koto ga attara dou shimasu ka?

Nepali : काममा समस्या आएमा कसरी समाधान गर्नुहुन्छ

Answer : せんばいにきていかいけつします。

Nepali : म अग्रजसँग सल्लाह लिएर समाधान गर्छु।

18. きゅうりょうはどれくらいほしいですか?

Nepali : तपाईं कति तलब चाहनुहुन्छ?

Roman : Kyuuryou wa dore gurai hoshii desu ka?

Answer : にほんのかいしゃのほうりつによって、どれくらいでもいいです。

Nepali : जापानी कम्पनीको कानून अनुसार, जति भए पनि ठीक छ।

Roman : Nihon no kaisha no houritsu ni yotte, dore kurai demo ii desu.

19. すぐにおこまってしまうおきゃくさまにたいしてどのようなたいおうをしますか?
?

Roman : Sugu ni okomatte shimau okyakusama ni taishite dono youna taiou o shimasu ka?

Nepali : तुरुन्तै समस्यामा परेका ग्राहकहरूलाई तपाईं कसरी प्रतिक्रिया गर्नुहुन्छ?

Answer : そのときはおきゃくさまにえがおでゆっくりはなします。おきゃくさまのはなしをきいていかいけつします。

Roman : Sono toki wa okyakusama ni egao de yukkuri hanashimasu.

Okyakusama no hanashi o kiite kaiketsu shimasu

Nepali : त्यस समयमा म ग्राहकलाई मुस्कानसहित विस्तारमा कुरा गर्छु। ग्राहकको कुरा सुनेर समस्या समाधान गर्छु।

16. あなたはにほんのりょうりをしてしていますか?

Roman : Anata wa Nihon no ryouri o shitteimasu ka?

Nepali : तपाईं जापानी खाना चिन्नुहुन्छ?

Answer はい、しています。ラーメンやおすしやてんぷらやおにぎりなど。
Roman : . Hai, shitteimasu. Rāmen ya osushi ya tenpura ya onigiri nado.
Nepali : हो, चिन्छु। ...,,, अनि जस्ता।

20. にほんりょうりをたべたことがありますか?

Roman : Nihon ryouri o tabeta koto ga arimasu ka?

Nepali : तपाईंले जापानी खाना खाएको अनुभव गर्नुभएको छ?

Answer: いいえ、いままでたべたことがないです。

Roman : EEA ima made tabeta koto ga nai desu.

Nepali : . छैन, अहिलेसम्म खाएको छैन।

21. たべられないものがありますか?

Roman : taberarenai mono ga arimasu ka?

Nepali : के त्यस्तो कुनै खाना छ जसलाई तपाईं खान सक्नुहुन्न?

Answer : はい、ぎゅうにくをたべることができない。でも、しごとはなんでもだいじょうぶです。

Roman : Hai, gyuuniku o taberu koto ga dekinai. Demo, shigoto wa nandemo daijoubu desu.

Nepali: हो, म गाईको मासु खान सक्दिनँ। तर, काममा केही समस्या छैन।

22. にほんのりょうりのあじはどうですか?

Roman : Nihon no ryouri no aji wa dou desu ka?

Nepali : जापानी खानाको स्वाद कस्तो छ?

Answer : はい、だいじょうぶです。 ठिक छ।

23. いなかととかいどちらにはたらかきたいですか?

Roman : Inaka to tokai dochira ni hatarakitai desu ka?

Nepali : तपाईं गाउँ र सहर कुन चाहनुहुन्छ?

Answer : にほんならどこでもだいじょうぶです。

Roman : . Nihon nara doko demo daijoubu desu.

Nepali : जापानमा जहाँ भए पनि ठिक छ।

24. にほんにはそうたいがありますか? しりあいのひとがいますか?

Roman : Nihon ni wa soutai ga arimasu ka? Shiriai no hito ga imasu ka?

Nepali : के जापानमा तपाईंको नातेदार छ? चित्रे कोही छन्?

Answer : いいえ、いません (EEA emasen)

Nepali : छैन, कोही छैन।

25. にほんでどれぐらいたいざいしたいですか?

Roman : Nihon de dore gurai taizai shitai desu ka?

Nepali : तपाईं जापानमा कति समय बस्न चाहनुहुन्छ?

Answer : できればながくまでたいざいしたいです。わたしは15ねんぐらいたいざいしたいです。

Roman : Dekireba nagaku made taizai shitai desu. Watashi wa 15-nen gurai taizai shitai desu.

Nepali : सकेसम्म लामो समयसम्म बस्न चाहन्छु। म करिब १५ वर्ष बस्न चाहन्छु।

26. しょうらい、どんなひとになりたいですか?

Roman : Shourai, donna hito ni naritai desu ka?

Nepali : भविष्यमा तपाईं कस्तो व्यक्ति बन्न चाहनुहुन्छ?

Answer : しょうらい、オンシャのリーダーになりたいです。ビジネスに、ビジネスマンになりたいです。わたしはおとなのビジネスをして、じぶんのレベルをアップしたいです。

Roman : Shourai, onsha no riidaa ni naritai desu. Bijinesu ni, bijinesuman ni naritai desu. Watashi wa otona no bijinesu o shite, jibun no reberu o appu shitai desu.

Nepali : भविष्यमा, म तपाईंको कम्पनीको लिडर बन्न चाहन्छु। म व्यवसायमा एक व्यवसायी बन्न चाहन्छु। म एक परिपक्व व्यवसाय गरेर आफ्नो स्तर बढाउन चाहन्छु।

27. あなたのしょうらいのゆめはなんですか?

Roman : Anata no shourai no yume wa nan desu ka?

Nepali : तपाईंको भविष्यको सपना के हो?

Answer : しょうらいのゆめはにほんにいて、にほんのかいしゃではたらいて、たくさんのお金をつむ、それからネパールへかえって、じぶんのビジネスをひらくことです。

Roman : Shourai no yume wa Nihon ni itte, Nihon no kaisha de hataraitte, takusan no keiken o tsumu, sorekara Nepāru e kaette, jibun no bijinesu o hiraku koto desu.

Nepali : मेरो भविष्यको सपना भनेको जापान जानु हो, जापानी कम्पनीमा काम गरेर धेरै अनुभव सँगाल्नु हो, त्यसपछि नेपाल फर्केर आफ्नो व्यापार खोल्नु हो।

28. にほんとネパールのじかんどれくらいちがいますか?

Roman : Nihon to Nepāru no jikan dore kurai chigaimasu ka?

Nepali : जापान र नेपालको समय कति फरक छ?

Answer : 3じかん15ふんのちがいます。

Roman : Nihon to Nepāru no jikan dore kurai chigaimasu ka?

Nepali : ३ घण्टा १५ मिनेटको फरक छ।

29. にほんにいてまずなにをしたいですか?

日本に行ったら知ってみたいものがありますか?

Roman : Nihon ni itte mazu nani o shitai desu ka?

Nihon ni itta ra shitte mitai mono ga arimasu ka?

Nepali : जापान गएपछि तपाईंले के गर्न चाहनुहुन्छ?

जापान गएपछि के के कुराहरू जान्न चाहनुहुन्छ?

Answer : नेपालにうみがなくてふねにのるきかいはありません。もし日本に行つてきかいはあればいちどふねにのつてみたいです。

Roman : Nepāru ni umi ga nakute fune ni noru kikai ga arimasen. Moshi Nihon ni itte kikai ga areba ichido fune ni notte mitai desu.

Nepali : . नेपालमा समुन्द्र छैन र म कहिल्यै ship यात्रा गर्ने अवसर पाउँदैन। यदि जापान गएर अवसर मिल्यो भने म एकपटक ship यात्रा गर्न चाहन्छु।

30. レストランにはたらくけいけんがありますか?

Roman : Resutoran ni hataraku keiken ga arimasu ka?

Nepali : तपाईंलाई रेस्टुरेन्टमा काम गर्ने अनुभव छ?

Answer : わたしはいまもにほんごをべんきょうしながら、いえからちかくのレストランにウェイターのしごとをしています。アルバイトをしています。

Roman : Watashi wa ima mo Nihongo o benkyou shinagara, ie kara chikaku no resutoran ni weitaa no shigoto o shiteimasu. Arubaito o shiteimasu.

Nepali : . हो, म अहिले पनि जापानी भाषा सिक्दै घरबाट नजिकैको रेस्टुरेन्टमा वेटरको काम गर्दैछु। म पार्ट टाइम काम गर्दैछु।

31. あなたは1ねんになんかいネパールへかえりたいですか?

Roman : Ichi nen ni wa kaerimasen ga, 3 nen to 4 nen ni ikkai kaeritai desu.

Nepali : म एक वर्षमा फर्कदैन तर तीन वर्ष र चार वर्षमा एक पटक फर्कन चाहन्छु।

Answer : 1ねんにはかえりませんが、3ねんと4ねんにいつかいかえりたいです。

Roman : 1 nen ni wa kaerimasen ga, 3 nen to 4 nen ni ikkai kaeritai desu.

Nepali : म एक वर्षमा फर्कदैन तर तीन वर्ष र चार वर्षमा एक पटक फर्कन चाहन्छु।

32. あなたはにほんごをどうやってべんきょうしていますか?

Roman : Anata wa nihongo o dou yatte benkyou shiteimasu ka?

Nepali : . तपाईं जापानी भाषा कसरी अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ?

Answer :わたしはネパールのがっこうでインターネットでにほんごをべんきょうしています。みんなのにほんごやまるごとやいろいろなどがつかってべんきょうしています。

Roman : Watashi wa Nepāru no gakkou de intānetto de nihongo o benkyou shiteimasu. Minna no nihongo ya Marugoto ya Irodori nado ga tsukatte benkyou shiteimasu.

Nepali : म नेपालको विद्यालयमा इन्टरनेटको माध्यमबाट जापानी भाषा अध्ययन गर्दैछु। म "みんなの日本語", "まるごと", "いろどり" जस्ता पुस्तकहरू प्रयोग गरेर अध्ययन गर्दैछु।

33. あなたはいつだいがくをそつぎょうしましたか?

Roman : . Anata wa itsu daigaku o sotsugyou shimashita ka?

Nepali : तपाईंले कहिले विश्वविद्यालयबाट स्नातक गर्नुभयो?

Answer : わたしは……. だいがくで……. をそつぎょうしました。

Nepali : मैले विश्वविद्यालयबाटमा स्नातक गरेको हुँ।

34. にほんはどんなくにだと思えますか?

にほんについてどうおもえますか?

Roman : . Nihon wa donna kuni da to omoimasu ka? Nihon ni tsuite dou omoimasu ka?

Nepali : तपाईंलाई जापान कस्तो देश लाग्छ? तपाईं जापानको बारेमा के सोच्नुहुन्छ?

Answer ; まずにほんはろうどうしゃにとってもあんぜんなくにです。 それににほんのぎじゅつもいちばんすばらしいです。 にほんにルールがまもらなければなりません。 にほんはわたしのゆめのくにです。

Roman : Mazu Nihon wa roudousha ni totte mo anzen na kuni desu. Sore ni Nihon no gijutsu mo ichiban subarashii desu. Nihon ni ruru ga mamoranakereba narimasen. Nihon wa watashi no yume no kuni desu.

Nepali : सबैभन्दा पहिले, जापान श्रमिकहरूको लागि एक सुरक्षित देश हो। त्यसैगरी, जापानको प्रविधि पनि सबैभन्दा उत्कृष्ट छ। जापानमा नियमहरूको पालना गर्नेपर्छ। जापान मेरो सपना देश हो।

35. あなたのくに、Nepalはどんなくにですか?

Roman : Anata no kuni, Neparu wa donna kuni desu ka?

Nepali : : तपाईंको देश, नेपाल कस्तो देश हो?

Answer : India とちゅうごくのあいだにあって、ちいさいくにです。 せかいでいちばんたかいやま、えぶれすとがあって、みどりがおおくて、きれいなくにです。 ここにいろいろなひとびとがすんでいて、だいたいのひとびとのしごとはのうぎょうです。

Roman: Indo to Chūgoku no aida ni atte, chiisai kuni desu. Sekai de ichiban takai yama, Eberesuto ga atte, midori ga ōkute, kirei na kuni desu. Koko ni iroirona hitobito ga sunde ite, daitai no hitobito no shigoto wa nōgyō desu

Nepali: भारत र चीन बीचमा रहेको सानो देश हो। संसारको सबैभन्दा अग्लो हिमाल, एभरेष्ट छ र यो हरियो र सुन्दर देश हो। यहाँ विभिन्न जातजातिका मानिसहरू बसोबास गर्दैछन् र अधिकांश मानिसहरूको काम कृषि हो।

36. あなたのだいがくでないようをおしえてください。

Roman : Anata no daigaku de naiyou o oshiete kudasai.

Nepali : तपाईं विश्वविद्यालयमा के study गर्नु वयो ?Subject ??

Answer: わたしのないようは…です。…….のなかで………がべんきょうしました

Roman : . Watashi no naiyou wa desu. no naka de ga benkyou shimashita.

Nepali : मेरो विषय भनेको हो।मा मैले सम्बन्धी अध्ययन गरेको छु।
तपाईंको स्वास्थ्य ठीक छ?

37. からだのけんこうがありますか?Kharada no kenkou ga arimasuka ?

तपाईंको स्वास्थ्य ठीक छ?

Answer :はい、あります。

38. あなたのだんなさん、おくさんもよばれますか?

Roman : . Anata no danna-san, okusan mo yobaremasu ka?

Nepali : तपाईंको श्रीमान् वा श्रीमतीलाई पनि बोलाइन्छ?

Answer : はい、いちねんごにはよばれます。

Roman : ? Hai, ichinen go ni wa yobaretai desu.

Nepali : हो, एक वर्ष पछि मलाई बोलाउन चाहन्छु।

39. うんてんめんきよはとっていますか?

Roman : Unten menkyo wa totteimasu ka?

Nepali : के तपाईंले सवारीचालक अनुमतिपत्र लिनुभएको छ?

Answer : いいえ、いまはないです。にほんへ行ってからとりたいです。

Roman : EEA, ima wa nai desu. Nihon e itte kara toritai desu.

Nepali : ? छैन, अहिले छैन। जापान गएपछि लिन चाहन्छु।

40. もしにほんにきたら、しごととはながくてやってください。すぐやめるのはだめです
ね。

Roman: Moshi Nihon ni kitara, shigoto wa nagakute yatte kudasai. Sugu yameru no wa dame desu ne.

Nepali: यदि तपाईं जापान आउनु भयो भने, कृपया कामलाई लामो समयसम्म गर्नुहोस्।
चाँडै छोड्नु राम्रो होइन।

Answer :はい、わかりました。わたしはながくまではたらいきたいです。

Roman: Hai, wakarimashita. Watashi wa nagaku made hatarakitai desu.

Nepali: हुन्छ, बुझें। म लामो समयसम्म काम गर्न चाहन्छु।

41. あなたはかぞくとはなれてにほんにはたらくことになりますか?かぞくのほうは
どうおもっていますか?

Roman: Anata wa kazoku to hanarete Nihon ni hataraku koto ni narimasu ka?
Kazoku no hito wa dou omotteimasu ka?

Nepali: तपाईं परिवारबाट टाढा जापानमा काम गर्न जानुहुन्छ? परिवारले के सोचिरहेको छ?

Answer : かぞくはわたしのあたらしいしごとのちゃんすをそふとしていますので、りかいしてくれています。

Roman: Kazoku wa watashi no atarashii shigoto no chansu wo sofuto shiteimasu node, rikai shite kureteimasu.

Nepali: परिवारले मेरो नयाँ कामको अवसरलाई समर्थन गरेको छ, त्यसैले उनीहरूले बुझिदिएका छन्।

42. しごとはあたたかいとさむいところにどうですか？できますか？

Roman: Shigoto wa atatakai to samui tokoro ni dou desu ka? Dekimasu ka?

Nepali: काम तातो र चिसो ठाउँमा कसरी गर्न सक्नुहुन्छ?

Answer : これはだいじょうぶです。

Roman: Kore wa daijoubu desu.

Nepali: यो ठिक छ।

43. Nepal のてんきはいまどうですか？

Roman: Nepāru no tenki wa ima dou desu ka?

Nepali: नेपालको मौसम अहिले कस्तो छ?

Answer : Nepal のてんきはいますこしあついです。

Roman: Nepāru no tenki wa ima sukoshi atsui desu.

Nepali: नेपालको मौसम अहिले अलिकति गर्मी छ।

44. あなたはにほんにへやがわかることができますか？

Roman: Anata wa Nihon ni heya ga wakeru koto ga dekimasu ka?

Nepali: के तपाईं जापानमा कोठा share गर्न सक्नुहुन्छ?

Answer : はい、できます。

Roman: Hai, dekimasu.

Nepali: हुन्छ, सक्छु।

45. へやになんにんぐらいすんでいることができますか？

Roman: Heya ni nannin gurai sunde iru koto ga dekimasu ka?

Nepali: कोठामा करिब कति जनाले बस्न सकिन्छ?

Answer : ふたりでさんにんぐらいすむことができます。

Roman: Futari de san nin gurai sumu koto ga dekimasu.

Nepali: २ देखि ३ जना Basna Sakxu.

43. にほんでひとりでせいかつができますか?

Roman: Nihon de hitori de seikatsu ga dekimasu ka?

Nepali: जापानमा एकलै बस्र सक्नुहुन्छ?

Answer: はい、できます。じぶんのことはぜんぶできるのでだいじょうぶです。

Roman: Hai, dekimasu. Jibun no koto wa zenbu dekiru node daijoubu desu.

Nepali: हो, सक्छु। आफ्नो सबै काम गर्न सक्ने भएकाले समस्या हुँदैन।

46. にほんぶんかがしていますか?

Roman: Nihon bunka ga shitteimasu ka?

Nepali: जापानी संस्कृति थाहा छ?

Answer: はい、しています。おちゃ、いけばな、かぶき、おまつり、きものですとくにきものがだいすきです。

Roman: Hai, shitteimasu. Ocha, ikebana, kabuki, omatsuri, kimono desu. Toku ni kimono ga daisuki desu.

Nepali: हो, थाहा छ। चिया, इकेबाना, काबुकी, पर्व, र किमोनो। विशेष गरी किमोनो मनपर्छ।

47. しごとをするときにせきにんをもってしごとができますか?

Roman: Shigoto o suru toki ni sekinin o motte shigoto dekimasu ka?

Nepali: काम गर्दा जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्न सक्नुहुन्छ?

Answer: はい、できます。

Roman: Hai, dekimasu.

Nepali: हो, सक्छु।

48. しんちょうはなんセンチですか?

Roman: Shinchou wa nan-senchi desu ka?

Nepali: उचाइ कति सेमी छ?

Answer: 150センチです。

Hiragana: ひゃくごじゅうせんちです。

Roman: Hyaku gojuu senchi desu.

Nepali: १५० सेमी छ।

49. たいじゅうはなんきろぐらむですか?

Roman: Taijuu wa nan-kiroguramu desu ka?

Nepali: तौल कति किलो छ?

Answer: 55キログラムです。

Hiragana: ごじゅうごきろぐらむです。

Roman: Gojuugo kiroguramu desu.

Nepali: ५५ किलो छ।

50. Team ではたらくのはとくいですか?

Roman: chimu de hataraku no wa tokui desu ka?

Nepali: समूहमा काम गर्न रुचि छ?

Answer: はい、わたしはあかるいひとです。ひとりじゃなくて、ぐるーぷとはたらくのがだいすきです。ちーむでいっしょにはたらくあいだに、わたしはいろいろなけいけんをして、じぶんのれべるをあつぷしたいです。

Roman: Hai, watashi wa akarui hito desu. Hitori janakute, gurūpu to hataraku no ga daisuki desu. Chīmu de issho ni hataraku aida ni, watashi wa iroiro na keiken o shite, jibun no reberu o appu shitai desu.

Nepali: हो, म एक खुशी मानिस हुँ। म एकलै होइन, समूहमा काम गर्न मन पराउँछु। टोलीमा संगै काम गर्दा, मैले धेरै अनुभव गर्न र आफ्नो स्तर बढाउन चाहन्छु।

Note:

Hobby for Care Giver Worker :

しゅみは がーでにんぐ と どくしょ です。がーでにんぐ では しょくぶつのせいちょうをみまもりながらリラックスできますし、こころがいやされます。それにわたしはゆうめいなひとびとのほんをよむのがだいすきです。

(Romanized Japanese)

Shumi wa gaadeningu to dokusho desu. Gaadeningu dewa shokubutsu no seichou o mimamorinagara rirakkusu dekimasu shi, kokoro ga iyasaremasu. Soreni watashi wa yuumei na hitobito no hon o yomu no ga daisuki desu.

Nepali

मेरो रुचि बगैँचामा काम गर्ने र पुस्तक पढ्ने हो। बगैँचामा काम गर्दा बिरुवाको वृद्धि हेर्दै आराम गर्न सकिन्छ, जसले मेरो मनलाई शान्त बनाउँछ। अनि, मलाई प्रसिद्ध व्यक्तिहरूका किताबहरू पढ्न पनि असाध्यै मन पर्छ।

Hobby for civil engineering students

Hiragana

わたしのしゅみはさまざまなこうぞうぶつのしやしんをとり、それにもとづいたプロジェクトしりょうをさくせいすることです。とくにいえやはしのしやしんをとるのがすきです。

(Romanized Japanese)

Watashi no shumi wa samazama na kouzoubutsu no shashin o tori, sore ni motozuita purojekuto shiryō o sakusei suru koto desu. Toku ni ie ya hashi no shashin o toru no ga suki desu.

Nepali

मेरो रुचि विभिन्न संरचनाहरूको फोटो खिच्नु र त्यसमा आधारित project सामग्री तयार गर्नु हो। विशेष गरी घर र पुलको फोटो खिच्न मन पर्छ।